

हमारे स्कूल के आसपास पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ (PICK-UP & DROP-OFF) (PUDO) ज़ोन

सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है

**DROP OFF
& PICK UP
ZONE**

**2
MINUTE
LIMIT**



PUDO ज़ोन क्या होता है?

PUDO ज़ोन 2-मिनट का पार्किंग स्पॉट है जिसका प्रयोग आप अपनी संतान को स्कूल से सुरक्षात्मक ढंग से और आसानी से पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। यह एयरपोर्ट टैक्सी रैंक के जैसे काम करता है।

सुबह के समय ज़ोन का प्रयोग करना:

आप निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करके सुबह **8बजे से 9:30बजे** के बीच PUDO का प्रयोग कर सकते हैं:

1. कतार में जुड़ें, बच्चों को सीटबेल्ट पहने हुए कार के अंदर रखें और पहले स्थान (फ्रंट) तक पहुँचने तक आगे बढ़ते रहें
2. कार पूरी तरह रोकने पर, अपने बच्चों को कार से बाहर आने दें
3. कार में ही रहें, जब तक कि आपकी संतान को सहायता की ज़रूरत न हो और अपनी संतान को चले जाने के बाद कार चलाकर चले जाएँ।

कृपया सुनिश्चित करें कि घर से निकलने से पहले कार में सामान रखते समय आपकी संतान का बैग उसे आसानी से उठाए जाने वाली जगह पर पड़ा है।

दोपहर बाद ज़ोन का प्रयोग करना:

आप निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करके दोपहर बाद **2:30बजे से 4बजे** के बीच PUDO का प्रयोग कर सकते हैं:

1. जब आपकी संतान सड़के के किनारे प्रतीक्षा कर रही हो, तो कतार में जुड़ें और पहले स्थान (फ्रंट) तक पहुँचने तक आगे बढ़ते रहें
2. कार पूरी तरह रोकने पर, अपनी संतान को सड़के के किनारे वाले सबसे करीबी दरवाजे का प्रयोग करके कार के अंदर आने दें
3. कार में ही रहें, जब तक कि आपकी संतान को सहायता की आवश्यकता न हो
4. यदि आपके आने पर आपकी संतान वहाँ प्रतीक्षा नहीं कर रही है, तो कार में ब्लॉक का चक्कर लगाकर आएँ और फिर से कतार में जुड़ जाएँ।

घंटी बजने के बाद स्कूल आने की योजना बनाएँ। आपको PUDO ज़ोन में प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं है।

याद रखें...

- हमेशा अपनी कार से तीन मीटर की दूरी के भीतर रहें
- अपनी कार को छोड़कर न जाएँ
- 2 मिनट से अधिक समय के लिए न रूकें
- यदि आप अपनी कार छोड़कर जाते हैं या 2 मिनट से अधिक समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं, तो इसे पार्किंग अपराध माना जाता है जिसके फलस्वरूप जुर्माना लग सकता है
- असुरक्षित रूप से पार्किंग करना बच्चों को खतरे में डालता है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपनी भूमिका निभाएँ।

और अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें या vicroads.vic.gov.au/safety-and-road-rules/road-safety-education पर जाएँ

